

AS-659

B.Com. (Part—II) Examination
MONEY AND FINANCIAL SYSTEM
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note :—(1) All questions are compulsory.
(2) All questions carry equal marks.

1. (a) State the meaning of money. Explain the various functions and importance of money. 14

OR

- (b) What is Inflation ? State the causes of Inflation and explain the measures to control it. 14

2. (a) Explain the features of Money Market. 4
(b) State the functions of SEBI. 4
(c) Write the components of the Indian Capital Market. 3
(d) Explain the concept of Money Market. 3

OR

- (e) Write the objectives of Money Market. 4
(f) State the features of the Indian Capital Market. 4
(g) State the role of Money Market in Indian Economy. 3
(h) Explain the structure of Capital Market in India. 3
3. (a) What is meant by Finance ? Explain the various types and importance of Finance. 14

OR

- (b) State the meaning of Monetary Policy. Explain the objectives and limitation of Monetary policy. 14
4. (a) Write the secondary functions of Commercial Bank. 4
(b) Explain the concept of Core-Banking. 4
(c) Explain the concept of Financial Institutions. 3
(d) State the instruments of credit creation. 3

OR

- (e) Explain the advantages of Credit Cards. 4
- (f) Write a note on e-Banking. 4
- (g) State the importance of Commercial Banks. 3
- (h) Give the limitations of Credit Creation. 3
- 5. (a) State the functions of Reserve Bank of India towards government. 4
- (b) State the characteristics of Stock Exchange . 4
- (c) State the objectives of credit control of RBI. 3
- (d) What do you mean by Repo Rate ? 3

OR

- (e) State the importance of Reserve Bank of India. 4
- (f) Explain the concept of Stock Exchanges. 4
- (g) Explain qualitative method of credit control of R.B.I. 3
- (h) What is 'Bank Rate' ? 3

AS-659

B.Com. (Part—II) Examination
MONEY AND FINANCIAL SYSTEM
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

सूचना :— (1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.
(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) मुद्रेचा अर्थ सांगा. मुद्रेची विविध कार्ये आणि महत्व स्पष्ट करा. 14
किंवा
(ब) स्फीती म्हणजे काय ? स्फीतीची कारणे सांगा आणि स्फीती नियंत्रीत करण्याचे उपाय स्पष्ट करा. 14
2. (अ) मुद्रा बाजाराचे वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. 4
(ब) 'सेबी' (SEBI) चे कार्य सांगा. 4
(क) भारतीय भांडवली बाजाराचे घटक लिहा. 3
(ड) मुद्रा बाजाराची संकल्पना स्पष्ट करा. 3
किंवा
(इ) मुद्रा बाजाराचे उद्देश्य लिहा. 4
(फ) भारतीय भांडवली बाजाराची वैशिष्ट्ये सांगा. 4
(ग) भारतीय अर्थव्यवस्थेत मुद्रा बाजाराची भूमिका सांगा. 3
(ह) भारतीय भांडवली बाजाराची संरचना स्पष्ट करा. 3
3. (अ) 'वित्त' या पासून आपणान्या काय अर्थबोध होतो ? वित्ताचे विविध प्रकार आणि महत्व स्पष्ट करा. 14
किंवा
(ब) मौद्रिक धोरणाचा अर्थ सांगून, मौद्रिक धोरणांची उद्दिष्ट्ये व मर्यादा स्पष्ट करा. 14

4. (अ) व्यापारी अधिकोषाचे दुय्यम कार्य लिहा. 4
(ब) कोअर बँकींगची संकल्पना स्पष्ट करा. 4
(क) वित्तीय संस्थांची संकल्पना स्पष्ट करा. 3
(ड) प्रत्यय निर्मितीची साधने लिहा. 3

किंवा

- (इ) 'क्रेडिट कार्ड' चे फायदे स्पष्ट करा. 4
(फ) इ-बँकींगवर टीपण लिहा. 4
(ग) व्यापारी बँकेचे महत्व स्पष्ट करा. 3
(ह) प्रत्यय निर्मितीच्या मर्यादा सांगा. 3
5. (अ) सरकारच्या प्रति रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे कार्य सांगा. 4
(ब) स्कंध विपणीची वैशिष्ट्ये सांगा. 4
(क) रिझर्व्ह बँकेच्या प्रत्यय नियंत्रणाची उद्दिष्ट्ये सांगा. 3
(ड) रेपो रेट या पासून आपणाय काय अर्थबोध होतो ? 3

किंवा

- (इ) भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे महत्व सांगा. 4
(फ) स्कंध विपणीची संकल्पना स्पष्ट करा. 4
(ग) रिझर्व्ह बँकेच्या प्रत्यय नियंत्रणाचे गुणात्मक साधने स्पष्ट करा. 3
(ह) अधिकोष दर (बँक रेट) म्हणजे काय ? 3

AS-659

B.Com. (Part—II) Examination
MONEY AND FINANCIAL SYSTEM
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— (1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) मुद्रा का अर्थ बताइये। मुद्रा के विभिन्न कार्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिये। 14
अथवा
(ब) स्फीति याने क्या ? स्फीति के कारण बताइये एवं स्फीति नियंत्रित करने के उपाय स्पष्ट कीजिये। 14
2. (अ) मुद्रा बाजार की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 4
(ब) 'सेबी' (SEBI) के कार्य बतलाइए। 4
(क) भारतीय पूंजी बाजार के घटक लिखिये। 3
(ड) मुद्रा बाजार की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 3
अथवा
(इ) मुद्रा बाजार के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 4
(फ) भारतीय पूंजी बाजार की विशेषताएँ बतलाइये। 4
(ग) भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार की भूमिका बतलाइये। 3
(ह) भारतीय पूंजी बाजार की संरचना स्पष्ट कीजिए। 3
3. (अ) 'वित्त' से आपको क्या अर्थबोध होता है ? 'वित्त' के विभिन्न प्रकार एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। 14
अथवा
(ब) मौद्रिक नीति का अर्थ बतलाकर मौद्रिक नीति के उद्देश्य एवं मर्यादाएं स्पष्ट कीजिए। 14

4. (अ) व्यापारी अधिकोष के दुय्यम कार्य लिखिये। 4
(ब) कोर-बैंकिंग की संकल्पना स्पष्ट कीजिये। 4
(क) वित्तीय संस्था की संकल्पना स्पष्ट कीजिये। 3
(ड) साख निर्माण के साधन बतलाइये। 3

अथवा

- (इ) साखपत्र (Credit Card) के लाभ स्पष्ट कीजिये। 4
(फ) इ-बैंकिंग पर टिप्पणी लिखिये। 4
(ग) व्यापारी बैंक के महत्व बतलाइये। 3
(ह) साख निर्मिती की सीमाएं बतलाइये। 3
5. (अ) भारतीय रिजर्व बैंक के सरकार के प्रति कार्य बतलाइये। 4
(ब) स्कंध विपणी की विशेषताएं बतलाइये। 4
(क) रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण के उद्देश्य बतलाइये। 3
(ड) रेपो रेट से आपको क्या अर्थबोध होता है ? 3

अथवा

- (इ) भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व बतलाइये। 4
(फ) स्कंध विपणी की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 4
(ग) रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण के गुणात्मक साधन बतलाइये। 3
(ह) 'बैंक रेट' याने क्या ? 3